



SURYA ROSHNI LIMITED

CIN -L31501HR1973PLC007543

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110 008

Ph.: +91-11-25810093-96, 47108000 Fax : +91-11-25789560

E-mail : cs@surya.in Website : www.surya.co.in

SRL/23-24/22
August 12, 2023

The Secretary
The Stock Exchange, Mumbai
New Trading Ring, 14th Floor,
Rotunda Building, P.J.Towers,
Dalal Street, Fort,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500336

The Manager (Listing Department)
The National stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
NSE Symbol: SURYAROSNI

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

Dear Madam / Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose e-copies of newspaper advertisement published on 12th August, 2023 regarding extract of the Unaudited consolidated and standalone financial results for the quarter ended June 30, 2023 as approved by Board at its meeting held on 11th August, 2023, in following newspapers:

- 1. Business Standard (English Edition) – New Delhi, Mumbai, Bengaluru**
- 2. Business Standard (Hindi Edition) – Chandigarh**

Further, we wish to inform you that apart from the above said publication, the said newspaper advertisement is also published on 12th August, 2023 in Business Standard- (English) – All Editions and Business Standard (Hindi) – Delhi & Mumbai also.

The above information is also available on the website of the Company www.surya.co.in

The date and time of occurrence of the event is 12th August, 2023 at 10:00 A.M.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully
For Surya Roshni Limited

B. B. SINGAL
CFO & COMPANY SECRETARY

Enclosed: as above

Deloitte may resign as auditor of Adani Ports

This comes weeks after it raised concerns over Hindenburg report

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 11 August

Deloitte is planning to resign as auditor of Adani Ports & Special Economic Zone (APSEZ), a move that comes weeks after it raised concerns over certain transactions flagged in a report by US short-seller Hindenburg Research.


Deloitte Haskins & Sells LLP has communicated its decision to the Adani firm and a formal announcement is expected shortly, sources with knowledge of the matter said. The reason for the resignation was not immediately known. Deloitte declined to comment. An email and calls to the Adani group were unanswered.

In May, Deloitte had flagged three transactions, including recoveries from a contractor identified in the Hindenburg report, as it issued a qualified opinion on the accounts of APSEZ.

In the auditors' report on the audit for the fourth quarter of the 2022-23 financial year, Deloitte highlighted transactions with three



entities, which the company said were unrelated parties. Deloitte, however, said it could not attest to the company's statement as no independent external examination has been done to prove the claims. Deloitte had stated that Adani group, however, did not consider necessary to have an independent external examination of the Hindenburg research allegations because of their evaluation and the ongoing investigation by the Securities and Exchange Board of India.



Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023. (₹ In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	
1. Total Income from operations	1,87,527	1,83,989	7,96,671
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	8,109	3,023	45,825
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	8,109	3,023	45,825
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5,913	2,224	33,562
5. Total Comprehensive Income for the period	5,907	2,223	33,550
6. Equity Share Capital	5,382	5,333	5,381
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve)			1,80,978
8. Earnings Per Share (of Rs.10/- each) in Rs.			
1. Basic:	10.98	4.17	62.78
2. Diluted:	10.97	4.09	61.87

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the Company's website www.surya.co.in.

2 The Key Standalone Financial Information is as under:

Particulars	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	
1. Total Income from operations	1,87,513	1,83,947	7,99,995
2. Profit before tax	8,109	3,022	45,893
3. Profit after tax	5,907	2,208	33,528

SURYA ROSHNI LIMITED

For Surya Roshni Limited SD/ Regd. Office: Preetam Nagar, Saket, Bhadrpur, Varanasi - 221007
Corp. Office: 2nd Floor, Preetam Towers, Saket, Varanasi, New Delhi - 110008
CIN No.: L31501HR1973LC007543, Tel.: 91-11-47108000
Website: www.surya.co.in, Email: hr@investorservices@srnl.com

For Surya Roshni Limited SD/ Managing Director DIN: 00515803
New Delhi, August 11, 2023

Q1 RESULTS CORNER

Patanjali Foods profit dips 63%

Patanjali Foods on Friday reported a 63.6 per cent drop in first-quarter profit as high costs dented margins.

The firm's net profit after tax (PAT) fell to ₹87.75 crore for the quarter ended June 30, from ₹241 crore a year earlier. Total revenue from operations increased 77 per cent to ₹767 crore, while total expenses rose 9.3 per cent due to higher purchases of stock-in-trade and employee costs. Revenue from Patanjali's packaged foods business that sells a range of products, including honey and juices, rose more than three-fold. The company also said the edible oil industry was impacted by significantly lower prices. **REUTERS**

Raymond logs multi-fold profit growth

Diversified group Raymond on Friday reported a multi-fold growth in consolidated net profit at ₹1,066.74 crore in the June quarter, helped by gains from sales of its consumer business to Godrej Consumer Product Ltd (GCPL). The leading textile and apparel maker had posted a net profit of ₹81.93 crore during the April-June period of the previous fiscal, Raymond said in a regulatory filing. Its revenue from operations rose 2.5 per cent to ₹1,714.6 crore during the quarter. **PTI**

Nykaa's profit up 8% at ₹5.4 crore

Beauty and fashion firm FSN E-Commerce Ventures, which operates under Nykaa brand, on Friday posted 8 per cent increase in consolidated net profit at ₹5.4 crore for June quarter 2023-24. The company had clocked a net profit of ₹5 crore in the same period a year ago. Profit attributable to equity shareholders declined about 26 per cent **PTI**

Apollo Hospitals misses estimates

Apollo Hospitals on Friday said its consolidated profit after tax (PAT) declined by 47 per cent to ₹167 crore in the first quarter ended June 30. It had reported a PAT of ₹317 crore in the same quarter last year. The bigger-than-expected fall in profit was dragged by operating costs related to its digital healthcare platform. **PTI**

Antony Waste Handling Cell Limited

Corporate Identity Number : L90001MH2001PLC130485
Registered office: 1403, 14th Floor, Dev Corpra Building, Opp. Cadbury Company, Eastern Express Highway, Thane - 400 601, Maharashtra, India

₹227.2 Cr.

REVENUE

₹52.1 Cr.

EBITDA

₹22.6 Cr.

PAT

Figures are for Q1FY24

ANTONY WASTE

Inauguration of the Maharashtra's first Integrated Waste to Energy Plant by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi

Begged the ET Sustainable Organisations 2023 Award for adopting Valuable Sustainable Initiatives

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Unaudited)		30 June 2022 (Unaudited)
1	Total Income	22,725.36	21,004.98	23,967.97	87,659.51
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3,452.57	1,789.63	3,471.73	10,228.85
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3,452.57	1,789.63	3,471.73	10,228.85
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,260.78	1,238.45	2,864.86	8,456.45
5	Other comprehensive Income/ (Loss) (net of tax)	10.60	(37.86)	26.00	42.41
6	Total Comprehensive Income for the period	2,271.38	1,200.59	2,890.86	8,498.86
7	Equity Share Capital	1,414.36	1,414.36	1,414.36	1,414.36
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (on Face value ₹ 5 each)*				
	Basic EPS	6.46	3.38	8.20	24.07
	Diluted EPS	6.46	3.38	8.20	24.06

* Quarterly figures are not annualised
Note: 1. The consolidated audited financial results ("financial results") have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time. The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors has approved these financial results at their respective meeting held on 11 August 2023.
2. Standalone information

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Unaudited)		30 June 2022 (Unaudited)
1	Total Income	1,712.07	1,817.02	2,091.01	7,295.08
2	Profit Before Tax	190.08	287.54	768.97	1,711.35
3	Profit After Tax	197.29	281.37	861.82	1,772.91
4	Total Comprehensive Income for the period	205.76	257.72	574.07	1,306.83

3. The above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange (s) websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company's website at www.antony-waste.com.
For and on behalf of the Board of Directors
Antony Waste Handling Cell Limited
Jose Jacob Karallickal
Chairman and Managing Director
DIN: 005495994

ONGC

ONGC Jeetega
Toh Jeetega India

NET ZERO by 2038
Scope-1 and Scope-2

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023
1	Total Income from Operations	33,896.33	42,280.72	155,517.32	1,63,923.91	1,82,883.76	6,94,959.22
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	13,880.98	20,342.97	59,830.04	23,738.81	12,894.29	93,988.10
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	13,880.98	20,342.97	59,830.04	23,738.81	12,270.99	43,050.70
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	10,015.04	15,205.85	38,828.87	17,382.57	8,880.75	32,777.81
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	12,452.39	13,882.32	38,310.22	18,778.82	13,945.68	35,648.89
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 5/-)	6,290.04	6,290.04	6,290.04	6,290.04	6,290.04	6,290.04
7	Net worth	2,70,258.22	2,50,830.33	2,57,846.84	3,20,551.74	2,98,279.34	3,07,295.60
8	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	8,425.76	8,990.23	12,718.88	1,75,731.88	1,15,858.75	1,29,585.96
9	Other Equity	2,84,008.08	2,44,940.25	2,31,955.70	2,80,034.05	2,70,181.95	2,76,357.78
10	Capital Redemption Reserve	126.88	126.88	126.88	191.75	191.75	191.75
11	Debture Redemption Reserve	Not applicable	Not applicable	Not applicable	1,600.36	2,832.89	2,894.95
12	Earnings Per Share (Price value of ₹ 5/- each) - not annualised						
	(a) Basic (₹)	7.88	12.09	30.88	11.23	9.48	28.17
	(b) Diluted (₹)	7.88	12.09	30.88	9.86	8.23	24.87
13	Debt Equity Ratio	0.03	0.04	0.05	0.38	0.38	0.43
14	Debt Service Coverage Ratio	180.57	290.52	194.88	2.59	1.02	3.83
15	Interest Service Coverage Ratio	180.57	290.52	194.88	18.04	18.83	12.84
16	Current Ratio	1.54	1.38	1.29	1.02	0.88	0.88
17	Long Term Debt to Working Capital	0.28	0.45	0.45	9.52	---	---
18	Bad debts to Account Receivable Ratio	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
19	Current Liability Ratio	0.33	0.33	0.39	0.37	0.45	0.42
20	Total Debts to Total Assets	0.02	0.03	0.02	0.18	0.18	0.21
21	Debtors Turnover	3.24	3.45	16.71	7.68	8.05	31.82
22	Inventory Turnover	4.11	5.26	18.22	3.81	3.35	13.92
23	Operating Margin (%)	42.68	48.57	40.08	15.93	7.89	8.63
24	Net Profit Margin (%)	29.82	35.83	26.97	10.61	4.89	4.73

Notes:
1. The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for quarter ended 30.06.2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30.06.2023 are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's website at www.ongcindia.com.

Place: Delhi
Date: 11 August 2023

By order of the Board
Pomila Jaspal
Director (Finance)

Oil and Natural Gas Corporation Limited

ONGC GROUP OF COMPANIES

CIN No. L74900DL1993OC005415
Regd. Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Road, Vaastav Kandi, New Delhi - 110078. Tel: 911-28754002, Fax: 911-28129091, E-mail: mcorporate@ongc.co.in

www.ongcindia.com /ONGClimited @ONGC company/ONGC ongccdelhi Instagram/ongccofficial

Deloitte may resign as auditor of Adani Ports

This comes weeks after it raised concerns over Hindenburg report

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 11 August

Deloitte is planning to resign as auditor of Adani Ports & Special Economic Zone (APSEZ), a move that comes weeks after it raised concerns over certain transactions flagged in a report by US short-seller Hindenburg Research.

Deloitte Haskins & Sells LLP has communicated its decision to the Adani firm and a formal announcement is expected shortly, sources with knowledge of the matter said. The reason for the resignation was not immediately known. Deloitte declined to comment. An email and calls to the Adani group were unanswered.

In May, Deloitte had flagged three transactions, including recoveries from a contractor identified in the Hindenburg report, as it issued a qualified opinion on the accounts of APSEZ.

In the auditors' report on the audit for the fourth quarter of the 2022-23 financial year, Deloitte highlighted transactions with three

Deloitte.

PAT **166%**
EBITDA **65%**
Q1 [FY24 VIS FY23]

entities, which the company said were unrelated parties. Deloitte, however, said it could not attest to the company's statement as no independent external examination has been done to prove the claims. Deloitte had stated that Adani group, however, did not consider it necessary to have an independent external examination of the Hindenburg research allegations because of their evaluation and the ongoing investigation by the Securities and Exchange Board of India.

Q1 RESULTS CORNER

Patanjali Foods profit dips 63%

Patanjali Foods on Friday reported a 63% per cent drop in first-quarter profit as high costs dented margins.

The firm's net profit after tax (PAT) fell to ₹87.75 crore for the quarter ended June 30, from ₹241 crore a year earlier. Total revenue from operations increased 77 per cent to ₹7,767 crore, while total expenses rose 9.3 per cent due to higher purchases of stock-in-trade and employee costs. Revenue from Patanjali's packaged foods business that sells a range of products, including honey and juices, rose more than three-fold. The company also said the edible oil industry was impacted by significantly lower prices. **REUTERS**

Raymond logs multi-fold profit growth

Diversified group Raymond on Friday reported a multi-fold growth in consolidated net profit at ₹1,066.74 crore in the June quarter, helped by gains from sales of its consumer business to Godrej Consumer Product Ltd (GCP), the leading textile and apparel maker had posted a net profit of ₹81.93 crore during the April-June period of the previous fiscal, Raymond said in a regulatory filing. Its revenue from operations rose 2.5 per cent to ₹1,71.46 crore during the quarter. **PTI**

Nykaa's profit up 8% at ₹5.4 crore

Beauty and fashion firm FSN E-Commerce Ventures, which operates under Nykaa brand, on Friday posted 8 per cent increase in consolidated net profit at ₹5.4 crore for June quarter 2023-24. The company had clocked a net profit of ₹5 crore in the same period a year ago. Profit attributable to equity shareholders declined about 26 per cent. **PTI**

Apollo Hospitals misses estimates

Apollo Hospitals on Friday said its consolidated profit after tax (PAT) declined by 47 per cent to ₹167 crore in the first quarter ended June 30. It had reported a PAT of ₹317 crore in the same quarter last year. The bigger-than-expected fall in profit was dragged by operating costs related to its digital healthcare platform. **PTI**

SURYA

Turns Over a New Leaf of Growth

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023. (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1. Total income from operations	1,87,527	1,83,989	7,99,671
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	8,109	3,023	45,925
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	8,109	3,023	45,925
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5,913	2,224	33,552
5. Total Comprehensive Income for the period	5,907	2,224	33,509
6. Equity Share Capital	5,382	5,333	5,361
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve)	—	—	1,80,878
8. Earnings Per Share (of Rs.10/- each) in Rs.			
1. Basic:	10.99	4.17	62.78
2. Diluted:	10.87	4.08	61.87

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the Company's website www.surya.co.in.
2 The Key Standalone Financial Information is as under:

Particulars	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1. Total income from operations	1,87,513	1,83,947	7,99,595
2. Profit before tax	8,101	3,002	45,989
3. Profit after tax	5,907	2,208	33,528

SURYA ROSHNI LIMITED

Regd. Office: Prakash Nagar, Senkhdi, Bhulurgur, Haryana - 124007
Corp. Office: 2nd Floor, Palika Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008
CIN No.: L31501HR1973PLC007943, TdL: +91-11-47108000
Website: www.surya.co.in, Email: investor@rosni.co

For Surya Rosni Limited **SURYA**
SUD
Vijay Surya
Managing Director
DIN: 00515903
New Delhi, August 11, 2023

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE
I am hereby informed that I am investigating the title in respect of property being Flat No.202, situated on the Second Floor, in the building known as 'Mohan Mahal', situated on land bearing Plot No.(7) of Survey No.251, CTIS No.1006, Plot No. of Survey No.251, CTIS No.1006, at VII/Avgoprt, Thane (East) 400803. Mrs. Varsha Chandra Nathani has represented to me that she has misplaced the original agreement dated 16th December 1986, executed between the Builder, Mrs. Sharma Construction and Mrs. Varsha Chandra Nathani and the original registration receipt issued at the office of the Sub-Registrar, Thane, bearing document number 772388, dated 21st December 1988.
If any persons, bank / financial institution and/or authority, has any claim, right, title or interest of any nature whatsoever in the above said Flat shall in writing raise their objections within 14 days from the date of this notice at A-70, Gurnunak CHS Ltd., Koper Colony, Thane (East), otherwise such claim will be considered as waived and no claims shall be entertained thereafter.
Anil S Shandassani
Advocate
Place: Thane Date: 12-08-2023

TATA POWER CO. LTD
Registered Office: Borjog Road, 400 001
NOTICE is hereby given that the Certificate(s) for the ununderwritten securities of the Company has/have been submitted and the holders of the said securities / applicants / transferees applied to the Company to release the new certificate(s). The Company has informed the holders / applicants that the said shares have been transferred to EFC as per EFC Rules. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office 15 days from the date, else the Company will proceed to release the new certificate to the holders / applicants, without further intimation.

Name of the Share Holder	Folio No.	No. of Shares	Kind of Securities	Distinctive No.
Pharoz J J Cusaji	HN90079149	3840	Equity Shares of Rs.10/- each	3199531-31943370

Place: Mumbai Date: 12/08/2023
Name of the Shareholders: Pharoz J J Cusaji

HERCULES LIMITED
501-504, Shelton Cubik, 87/15, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614 Maharashtra.
Registered Office: Bejaa Shrawan, 2nd Floor, 22B, Nariman Point, Mumbai-400021.
Ph: +91 022-45417305/96 Email: info@hercules.com
URL: www.hercoel.com CIN: L45400MH1902PLC012385

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2023

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		(₹-Audited)	(₹-Unaudited)	(₹-Audited)	(₹-Unaudited)	(₹-Audited)	(₹-Unaudited)	(₹-Audited)	(₹-Unaudited)
1	Total income from operations	4,624.4	5,097.00	3,242.25	16,344.58	4,424.24	3,307.01	16,344.58	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	682.4	684.48	329.20	2,393.18	823.56	833.82	2,081	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	682.4	684.48	329.20	2,393.18	823.56	833.82	2,081	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	481.02	4,455.16	238.24	1,313.33	481.84	849.82	1,129.39	
5	Total Comprehensive Income for the period	481.02	4,455.16	238.24	1,313.33	481.84	849.82	1,129.39	
6	Equity Share Capital	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	
7	Other Equity	—	—	—	—	—	—	—	
8	Earnings Per Share (of Rs. 1.00 each) for 6 continuing and discontinued operations	—	—	—	—	—	—	—	
9	Basic & Diluted:	1.29	16.35	0.71	12.28	1.2	26.51	12.28	

NOTE: The above is an extract of the detailed format of the Results Text with the Stock Exchanges and the full format of the Results are available on the website of www.hercoel.com and www.hercoel.com.

For Hercules Hoists Limited
Shaharaj Bejaa
Chairman
DIN:00048955

Place: Mumbai Date: 11-08-2023

NOTICE

MR. YASHWANATH M. SHETTY, a sole owner of Flat No. B-501 on FIFTH FLOOR of POWAI VIHAR BUILDING NO. 2 CHS. LTD., having a right of pre-emption in the capital/property of the society at POWAI VIHAR COMPLEX, ADI SHANKARACHARYA MARG, POWAI, MUMBAI-400076, died on 07.12.2018 without making any will. The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other claimant or claimants to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society within a period of 15 days from the date of publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society as provided under the bye-laws of the society. The claims/objections if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the society. A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimant/objectioners, with the Society Office between office hours i.e. from 10:00 P.M. to 6:00 P.M. from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.
Date: 12/08/2023
Place: Mumbai-400076
For and on behalf of
POWAI VIHAR BUILDING NO. 2 CHS. LTD.
Sd/-
HON. SECRETARY

ONGC Jeetega Toh Jeetega India

NET ZERO by 2038
Scope-1 and Scope-2

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (₹ in Crore unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated	
		Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022
1	Total Income from Operations	42,807.33	42,830.72	1,63,823.59	1,62,893.75
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	2,942.87	20,342.87	23,739.81	12,894.25
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	13,580.59	20,342.87	23,739.81	12,220.29
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional Items)	10,015.04	15,205.85	18,828.87	9,580.75
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	12,452.38	13,882.82	38,310.22	13,145.68
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 5/- each)	6,290.04	6,290.04	6,290.04	6,290.04
7	Net worth	2,70,258.22	2,90,830.33	3,20,153.74	2,96,779.71
8	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	4,425.76	9,990.23	7,218.88	1,15,658.75
9	Other Equity	2,64,008.08	2,44,540.25	2,80,074.05	2,70,189.55
10	Capital Redemption Reserve	126.48	126.48	126.64	191.75
11	Debenture Redemption Reserve	Net applicable	Not applicable	Not applicable	1,600.00
12	Earnings Per Share (Face value of ₹ 5/- each) - not annualized				
(a) Basic (₹)	7.89	12.09	30.89	11.23	
(b) Diluted (₹)	7.96	12.09	30.89	11.23	
13	Debt Equity Ratio	0.03	0.04	0.03	0.36
14	Debt Service Coverage Ratio	190.57	290.52	194.88	2.59
15	Interest Service Coverage Ratio	180.57	290.52	194.88	18.04
16	Current Ratio	1.16	1.38	1.29	1.02
17	Long Term Debt to Working Capital	0.26	0.45	0.45	0.52
18	Debt to Equity Ratio	—	—	—	—
19	Current Liability Ratio	0.33	0.33	0.33	0.01
20	Total Debt to Total Assets	0.02	0.03	0.02	0.18
21	Debtors Turnover	3.21	3.45	14.51	24.61
22	Inventory Turnover	4.11	5.25	19.22	3.81
23	Operating Margin (%)	40.48	49.57	49.08	19.39
24	Net Profit Margin (%)	28.92	35.61	24.01	10.81

Not disclosed as denominator's negative.

1. The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the quarter ended 30.06.2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited Financial Results for the quarter ended 30.06.2023 are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's website at www.ongcindia.com.

Place: Delhi
Date: 11 Aug 2023

Oil and Natural Gas Corporation Limited
Poonima Jaspal
Director (Finance)

ONGC Group of Companies
Subsidiaries: OTCPC, ONGC Ltd., ONGC Petrochemical Limited, ONGC India, ONGC Petrochemicals Limited, ONGC India. Associate: ONGC India.

CIN No. L74899DL1982OJ0054155
Regd Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070 | Tel: 91-11-26754022, Fax: 91-11-28129391, E-mail: secretariat@ongc.co.in
www.ongcindia.com / ONGC.Limited / @ONGC / company/ONGC / ongccdellhcc / Instagram/ongcofficial

Deloitte may resign as auditor of Adani Ports

This comes weeks after it raised concerns over Hindenburg report

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 11 August

Deloitte is planning to resign as auditor of Adani Ports & Special Economic Zone (APSEZ), a move that comes weeks after it raised concerns over certain transactions flagged in a report by US short-seller Hindenburg Research.


Deloitte Haskins & Sells LLP has communicated its decision to the Adani firm and a formal announcement is expected shortly, sources with knowledge of the matter said. The reason for the resignation was not immediately known. Deloitte declined to comment. An email and calls to the Adani group were unanswered.

In May, Deloitte had flagged three transactions, including recoveries from a contractor identified in the Hindenburg report, as it issued a qualified opinion on the accounts of APSEZ.

In the auditors' report on the audit for the fourth quarter of the 2022-23 financial year, Deloitte highlighted transactions with three



entities, which the company said were unrelated parties. Deloitte, however, said it could not attest to the company's statement as no independent external examination has been done to prove the claims. Deloitte had stated that Adani Group, however, did not consider necessary to have an independent external examination of the Hindenburg research allegations because of their evaluation and the ongoing investigation by the Securities and Exchange Board of India.



Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023. (₹ In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	
1. Total Income from operations	1,87,527	1,83,989	7,99,671
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	8,109	3,023	45,925
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	8,109	3,023	45,925
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5,913	2,224	33,592
5. Total Comprehensive Income for the period	5,907	2,224	33,590
6. Equity Share Capital	5,382	5,333	5,381
7. Reserve (excluding Revaluation Reserve)			1,80,978
8. Earnings Per Share (of Rs.10/- each) in Rs.			
1. Basic:	10.98	4.17	62.78
2. Diluted:	10.97	4.09	61.87

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the Company's website www.surya.co.in.
2 The Key Standalone Financial Information is as under:

Particulars	Quarter Ended		Year Ended
	30.06.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	
1. Total Income from operations	1,87,513	1,83,947	7,99,595
2. Profit before tax	8,109	3,022	45,953
3. Profit after tax	5,907	2,208	33,528

SURYA ROSHNI LIMITED

For Surya Roshni Limited SD/ Regd. Office: Prakash Nagar, Sakinaka, Bhatkundi, Hyderabad - 500070
Corp. Office: 2nd Floor, Patina Towers - 1, Sakinaka Place, New Delhi - 110008
CIN No.: L31501HR1973PLC007543, Tel.: 91-11-4710800
Website: www.surya.co.in, Email: investorrelations@srnl.com

For Surya Roshni Limited SD/ Managing Director DIN: 00515803
New Delhi, August 11, 2023



Q1 RESULTS CORNER

Patanjali Foods profit dips 63%

Patanjali Foods on Friday reported a 63.6 per cent drop in first-quarter profit as high costs dented margins.

The firm's net profit after tax (PAT) fell to ₹87.75 crore for the quarter ended June 30, from ₹241 crore a year earlier. Total revenue from operations increased 77 per cent to ₹7,67 crore, while total expenses rose 9.3 per cent due to higher purchases of stock-in-trade and employee costs. Revenue from Patanjali's packaged foods business that sells a range of products, including honey and juices, rose more than three-fold. The company also said the edible oil industry was impacted by significantly lower prices. **REUTERS**

Raymond logs multi-fold profit growth

Diversified group Raymond on Friday reported a multi-fold growth in consolidated net profit at ₹1,066.74 crore in the June quarter, helped by gains from sales of its consumer business to Godrej Consumer Product Ltd (GCPL). The leading textile and apparel maker had posted a net profit of ₹81.93 crore during the April-June period of the previous fiscal, Raymond said in a regulatory filing. Its revenue from operations rose 2.5 per cent to ₹1,71.46 crore during the quarter. **PTI**

Nykaa's profit up 8% at ₹5.4 crore

Beauty and fashion firm FSN E-Commerce Ventures, which operates under Nykaa brand, on Friday posted 8 per cent increase in consolidated net profit at ₹5.4 crore for June quarter 2023-24. The company had clocked a net profit of ₹5 crore in the same period a year ago. Profit attributable to equity shareholders declined about 26 per cent **PTI**

Apollo Hospitals misses estimates

Apollo Hospitals on Friday said its consolidated profit after tax (PAT) declined by 47 per cent to ₹167 crore in the first quarter ended June 30. It had reported a PAT of ₹317 crore in the same quarter last year. The bigger-than-expected fall in profit was dragged by operating costs related to its digital healthcare platform. **PTI**

Antony Waste Handling Cell Limited

Corporate Identity Number : L90001MH2001PLC130485
Registered office: 1403, 14th Floor, Dev Corpora Building, Opp. Cadbury Company, Eastern Express Highway, Thane - 400 601, Maharashtra, India

₹227.2 Cr.

REVENUE

₹52.1 Cr.

EBITDA

₹22.6 Cr.

PAT

Figures are for Q1FY24

- Inauguration of the Maharashtra's first Integrated Waste to Energy Plant by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi
- Bagged the ET Sustainable Organisations 2023 Award for adopting Valuable Sustainable Initiatives

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Unaudited)		30 June 2022 (Unaudited)
1	Total Income	22,725.36	21,004.98	23,967.97	87,659.51
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3,452.57	1,789.63	3,471.73	10,228.85
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3,452.57	1,789.63	3,471.73	10,228.85
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,260.78	1,238.45	2,864.86	8,456.45
5	Other comprehensive income/ (loss) (net of tax)	10.60	(37.86)	26.00	42.41
6	Total Comprehensive Income for the period	2,271.38	1,200.59	2,890.86	8,498.86
7	Equity Share Capital	1,414.36	1,414.36	1,414.36	1,414.36
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (on Face value ₹ 5 each)*				
	Basic EPS	6.46	3.38	8.20	24.07
	Diluted EPS	6.46	3.38	8.20	24.06

* Quarterly figures are not annualised.
Note: 1. The consolidated audited financial results (financial results) have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time. The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors has approved these financial results at their respective meetings held on 11 August 2023.
2. Standalone information

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30 June 2023 (Unaudited)	31 March 2023 (Unaudited)		30 June 2022 (Unaudited)
1	Total Income	1,712.07	1,817.02	2,091.01	7,295.08
2	Profit Before Tax	190.08	287.54	768.97	1,711.35
3	Profit After Tax	197.29	281.37	561.52	1,272.91
4	Total Comprehensive Income for the period	205.76	257.72	574.07	1,306.83

3. The above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange(s) websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.antony-waste.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Antony Waste Handling Cell Limited

Jose Jacob Kallarakal
Chairman and Managing Director
DIN: 00445994

**ONGC Jeelega
Toh Jeelega India**

**NET ZERO
by 2038**

Scope-1 and Scope-2

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023
1	Total Income from Operations	33,996.33	42,280.72	42,280.72	1,63,923.91	1,62,983.76	6,94,959.22
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	13,880.98	20,342.97	19,830.04	23,738.81	12,270.99	93,988.10
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	13,880.98	20,342.97	19,830.04	23,738.81	12,270.99	93,988.10
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	10,015.04	15,205.85	14,828.87	17,382.57	8,880.75	32,777.81
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	12,452.39	13,882.32	13,310.22	18,778.82	13,945.68	35,648.89
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 5/-)	6,290.04	6,290.04	6,290.04	6,290.04	6,290.04	6,290.04
7	Net worth	2,70,258.22	2,50,830.33	2,57,846.84	3,20,353.74	2,98,279.34	3,07,295.04
8	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	8,425.76	8,990.23	7,218.88	1,75,731.88	1,15,888.75	1,29,395.60
9	Other Equity	2,84,008.08	2,44,940.25	2,51,955.70	2,80,014.95	2,70,181.95	2,76,357.78
10	Capital Redemption Reserve	126.85	126.88	126.88	191.75	191.75	191.75
11	Debt Redemption Reserve	Not applicable	Not applicable	Not applicable	1,600.36	2,832.89	2,894.95
12	Earnings Per Share (Face value of ₹ 5/- each) - not annualised						
	(a) Basic (₹)	7.88	12.09	10.86	11.23	9.68	28.17
	(b) Diluted (₹)	7.88	12.09	10.86	11.23	9.68	28.17
13	Debt Equity Ratio	0.03	0.04	0.03	0.38	0.38	0.43
14	Debt Service Coverage Ratio	180.57	290.52	194.88	2.58	1.02	3.83
15	Interest Service Coverage Ratio	180.57	290.52	194.88	18.04	18.83	12.84
16	Current Ratio	1.54	1.38	1.29	1.02	0.88	0.88
17	Long Term Debt to Working Capital	0.28	0.45	0.45	9.52	---	---
18	Bad debts to Account Receivable Ratio	0.01	0.01	0.01	0.01	---	---
19	Current Liability Ratio	0.33	0.33	0.33	0.37	0.45	0.42
20	Total Debts to Total Assets	0.02	0.03	0.02	0.18	0.18	0.21
21	Debtors Turnover	3.24	3.45	3.61	7.68	8.05	31.82
22	Inventory Turnover	4.11	5.26	19.22	3.81	3.35	13.92
23	Operating Margin (%)	42.48	48.57	40.08	15.93	7.95	8.63
24	Net Profit Margin (%)	29.82	35.83	26.97	10.61	4.89	4.73

Note: Not disclosed as denominator negative.
1. The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant laws issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for quarter ended 30.06.2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited Financial Results for the quarter ended 30.06.2023 are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and Company's website at www.ongcindia.com.

Place: Delhi
Date: 11 August 2023

Oil and Natural Gas Corporation Limited

Pomila Jaspal
Director (Finance)

CIN No. L74900DL1993OC004153
Regd. Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Road, Vaastav Kandi, New Delhi - 110078. Tel: 91-11-28745040, Fax: 91-11-28129091, E-mail: corporate@ongc.com

www.ongcindia.com / ONGC.limited / [@ONGC](https://t.me/ONGC) / [company/ONGC](https://www.facebook.com/ONGC) / [ongccdhcc](https://www.instagram.com/ongccdhcc) / [Instagram/ongccofficial](https://www.instagram.com/ongccofficial)

